

कुछ अभ्यासार्थ प्रश्नों के उत्तर

एकक 11

11.1 (i) 2,2,4-ट्राइमेथिलप्रोपेन -3-ऑल






(iii) प्रोपेन -2,3-डाइऑल

(v) 2-मेथिलफ़ीनॉल

(vii) 2,5 - डाइमेथिलफ़ीनॉल

(ix) 1-मेर्थॉक्सी-2-मेथिलप्रोपेन

(xi) 1-फ़ीनॉक्सीहेप्टेन



11.3 (क) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$, पेन्टेन-1-ऑल

(ख) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \underset{\text{CH}_3}{\text{CH}} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$, 2-मेथिलब्यूटेन-1-ऑल

(ग) $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 - \text{C} - \text{CH}_2\text{OH}, 2,2\text{-डाइमेथिलप्रोपेन-1-ऑल} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$

(घ) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \underset{\text{OH}}{\text{CH}} - \text{CH}_3$, पेन्टेन-2-ऑल

(छ) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \underset{\text{CH}_3}{\text{C}} - \text{OH}$, 2-मेथिलब्यूटेन-2-ऑल

(ii) 5-एथिलहेप्टेन -2, 4-डाइऑल






(iv) प्रोपेन -1,2,3,-ट्राइऑल

(vi) 4-मेथिलफ़ीनॉल

(viii) 2,6-डाइमेथिलफ़ीनॉल

(x) एथॉक्सीबेन्जीन

(xii) 2-एथॉक्सीब्यूटेन



(घ) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \underset{\text{OH}}{\text{CH}} - \text{CH}_3$, पेन्टेन-2-ऑल



(च) $\text{CH}_3 - \underset{\text{CH}_3}{\text{CH}} - \text{CH} - \text{CH}_3$, 3-मेथिलब्यूटेन-2-ऑल

11.4 प्रोपेनॉल में हाइड्रोजन आबंधन

11.5 जल एवं ऐल्कोहॉल अणुओं के बीच आबंधन।

11.8 o-नाइट्रोफीनॉल अंतराआण्विक हाइड्रोजन आबंधन के कारण भाप में वाष्पशील है।

11.12 संकेत: सल्फोनेशन के पश्चात नाभिकरागी प्रतिस्थापन करें।





11.14 (i) सोडियम तथा **(ii)** सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ अभिक्रिया

11.15 नाइट्रो समूह की इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति और मेथाक्सी समूह की इलेक्ट्रॉन विमोचक प्रवृत्ति के कारण

11.20 (i) प्रोपीन का जलयोजन

(ii) बेन्जिल क्लोराइड के -Cl का तनु NaOH के उपयोग द्वारा नाभिकरागी प्रतिस्थापन



11.23 (i) 1-एथॉक्सी-2-मेथिलप्रोपेन

(ii) 2-क्लोरो-1-मेथॉक्सीएथेन

(iii) 4-नाइट्रोएनिसॉल

(iv) 1-मेथाक्सीप्रोपेन

(v) 1-एथाक्सी-4,4-डाइमेथिलसाइक्लोहेक्सेन

(vi) एथॉक्सीबेन्जीन

एकक 12

12.2 (i) 4-मेथिलपेन्टेनैल

(iii) ब्यूट-2-इनैल





(v) 3,3,5-ट्राइमेथिलहेक्सेन-2-ओन





(vii) बेन्जीन -1,4-डाइकार्बोलिडहाइड

(ii) 6-क्लोरो-4-एथिलहेक्सेन-3-ओन

(iv) पेन्टेन-2,4-डाइओन

(vi) 3,3-डाइमेथिलब्यूटेनॉइक अम्ल





12.4 (i) हेप्टेन-2-ओन











(ii) 4-ब्रोमो-2-मेथिलहेक्सेनैल

(iii) हेप्टेनैल

(iv) 3-फेनिलप्रोप-2-ईनैल

(v) साइक्लोपेन्टेनकार्बोलिडहाइड

(vi) डाइफेनिलमेथेनोन



12.7 (ii), (v), (vi), (vii) – ऐल्डोल संघनन. (i), (iii), (ix) कैनिजारे अभिक्रिया (iv), (viii) कोई भी नहीं

12.10 2-एथिलबेन्जैलिडहाइड (संरचना स्वयं लिखें)






12.11 (क) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$, ब्यूटिल ब्यूटेनोऐट


(ख) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$ (ग) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$. समीकरण स्वयं लिखें

12.12 (i) डाइ-तृतीयक-ब्यूटिल कीटोन < मेथिल तृतीयक-ब्यूटिल कीटोन < एसीटोन < एस्टैलिडहाइड



(ii) $(\text{CH}_3)_2\text{CHCOOH} < \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH} < \text{CH}_3\text{CH}(\text{Br})\text{CH}_2\text{COOH} < \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{Br})\text{COOH}$

(iii) 4-मेर्थॉक्सीबेन्जोइक अम्ल < बेन्जोइक अम्ल < 4-नाइट्रोबेन्जोइक अम्ल < 3,4-डाइनाइट्रोबेन्जोइक अम्ल





(x) 1. BH_3 ; 2. $\text{H}_2\text{O}_2/\bar{\text{OH}}$; 3. PCC



12.19 यौगिक मेथिल कीटोन है और इसकी संरचना होगी- $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$

एकक 13

13.1 (i) 1-मेथिलएथेनेमीन

(ii) प्रोपेन-1-ऐमीन

(iii) N-मेथिल-2-मेथिलएथेनेमीन

(iv) 2-मेथिलप्रोपेन-2-ऐमीन

(v) N-मेथिलबेन्जेनेमीन या N-मेथिलएनिलीन

(vi) N-एथिल-N-मेथिलएथेनेमीन

(vii) 3-ब्रोमोएनिलीन या 3-ब्रोमोबेन्जेनेमीन

13.4 (i) $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 < \text{C}_6\text{H}_5\text{NHCH}_3 < \text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2 < (\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH}$

(ii) $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 < \text{C}_6\text{H}_5\text{N}(\text{CH}_3)_2 < \text{CH}_3\text{NH}_2 < (\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH}$

(iii) (a) p-नाइट्रोएनिलीन < ऐनिलीन < p-टॉलुडील

(b) $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 < \text{C}_6\text{H}_5\text{NHCH}_3 < \text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{NH}_2$

(iv) $(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{N} > (\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH} > \text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2 > \text{NH}_3$ (v) $(\text{CH}_3)_2\text{NH} < \text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2 < \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

(vi) $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 < (\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH} < \text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$

एकक 15

15.1 (i) बहुलक उच्च आण्विक द्रव्यमान वाला बृहदणु है जिसमें एकलक से व्युत्पित पुनरावृत्त संरचनात्मक इकाइयाँ पाई जाती हैं।

(ii) एकलक एक सरल अणु है जो बहुलकीकृत होने में सक्षम है और इससे संगत बहुलक बनता है।

15.2 (i) प्राकृतिक बहुलक उच्च आण्विक द्रव्यमान वाले बृहदणु हैं और यह पादपों और जंतुओं में पाए जाते हैं। प्रोटीन और न्यूक्लीक अम्ल इसके उदाहरण हैं।

(ii) संशिलष्ट बहुलक मानव निर्मित उच्च आण्विक द्रव्यमान वाले बृहदणु हैं। संशिलष्ट प्लास्टिक, रेशे और रबर इसके अंतर्गत आते हैं। दो विशिष्ट उदाहरण पॉलिथीन और डेक्रॉन हैं।

15.4 प्रकार्यात्मकता एकलक में आबंधी स्थितियों की संख्या है।

15.5 एक अथवा अधिक एकलकों की सहसंयोजक बंधों द्वारा पुनरावृत्त संरचनात्मक इकाइयों के एक साथ शृंखलित होने से बनने वाले उच्च आण्विक द्रव्यमान वाले बहुलक बनने की प्रक्रिया बहुलकन है।



15.6 चौंकि $(\text{NH}-\text{CHR}-\text{CO})_n$ इकाई एकल एकलक इकाई से प्राप्त होती है इसलिए यह एक समबहुलक है।

15.7 विभिन्न बहुलकों की शृंखलाओं के मध्य उपस्थित आण्विक बलों के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से दिया गया है।

(i) प्रत्यास्थ बहुलक (ii) रेशे (iii) तापसुघट्य बहुलक और (iv) तापदृढ़ बहुलक

15.8 योगज बहुलकन में समान अथवा भिन्न एकलक अणु एक साथ जुड़ कर बृहत् बहुलक अणु बनाते हैं। संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें दो अथवा अधिक प्रकार के द्विक्रियात्मक अणु संघनन अभिक्रियाओं की शृंखला द्वारा कुछ सरल अणुओं के विलोपन से बहुलक बनाते हैं।

15.9 सहबहुलकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक से अधिक प्रकार की एकलक स्पीशीज़ का बहुलकन किया जाता है। सहबहुलक में प्रत्येक एकलक की अनेक इकाइयाँ होती हैं। 1,3-ब्यूटाइडाइन तथा स्टाइरीन और 1,3-ब्यूटाइडाइन एवं ऐक्रिलोनाइट्राइल के सहबहुलक इसके उदाहरण हैं।



- 15.11** तापसुधट्ट्य बहुलक को बार-बार तापन द्वारा मृदुलित और शीतलन द्वारा कठोर बनाया जा सकता है। अतः इसे बार-बार उपयोग किया जा सकता है। पॉलिथीन और पॉलिप्रोपिलीन आदि इसके उदाहरण हैं। तापदृढ़ बहुलक स्थायी रूप से दृढ़ रहने वाला बहुलक है। यह साँचे में ढालने की प्रक्रिया में कठोर हो जाता है तथा जम जाता है और पुनः मृदुलित भी नहीं किया जा सकता। बैकालाइट और मेलैमीन-फॉर्मल्डीहाइड बहुलक इसके उदाहरण हैं।

15.12 (i) पॉलिवाइनिल क्लोराइड का एकलक $\text{CH}_2=\text{CH-Cl}$ (वाइनिल क्लोराइड) है। (ii) टेफ्लॉन का एकलक $\text{CF}_2=\text{CF}_2$ (टेट्राफ्ल्युओरोएथिलीन) है। (iii) बैकालाइट के बनने में प्रयुक्त होने वाले एकलक HCHO (फॉर्मल्डीहाइड) और $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ (फीनॉल) हैं।

15.14 संरचना की दृष्टि से प्राकृतिक रबर एक रेखीय सिस-1,4-पॉलिआइसोप्रीन है। इस बहुलक में द्विआंबंध आइसोप्रीन इकाइयों के C_2 और C_3 के मध्य स्थित होते हैं। द्विआंबंध का सिस अभिविन्यास दुर्बल अंतराण्डिक बलों द्वारा प्रभावी आकर्षण के लिए शृंखलाओं को समीप नहीं आने देता। अतः प्राकृतिक रबर की कुण्डलित संरचना होती है और यह प्रत्यास्थता प्रदर्शित करता है।

15.16 नाइलॉन-6 की पुनरावृत एकलक इकाई $[\text{NH}(\text{CH}_2)_5-\text{CO}]$ है। नाइलॉन-6,6 बहुलक की पुनरावृत एकलक इकाई दो एकलकों हैं क्षामेथिलीनडाइऐमीन और ऐडिपिक अम्ल से व्युत्पित होती है।


$$[\text{NH}-(\text{CH}_2)_6-\text{NH}-\text{CO}-(\text{CH}_2)_4-\text{CO}]$$

- 15.17 एकलकों के नाम और संरचनाएं**

बहुलक	एकलकों के नाम	एकलकों की संरचनाएं
(i) व्यूना-S	1,3-व्यूटाडाईन	$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$
	स्टाइरीन	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}=\text{CH}_2$
(ii) व्यूना-N	1,3-व्यूटाडाईन	$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$
	ऐक्रिलोनाइट्राइल	$\text{CH}_2=\text{CHCN}$
(iii) निओप्रीन	क्लोरोप्रीन	$\text{CH}_2=\overset{\text{Cl}}{\underset{ }{\text{C}}}-\text{CH}=\text{CH}_2$
(iv) डेक्रॉन	एथिलीनग्लाइकॉल	$\text{OHCH}_2-\text{CH}_2\text{OH}$
	टैरीथैलिक अम्ल	$\text{COOH}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COOH}$

15.18 बहुलक बनाने वाले एकलक हैं -

- (i) डेकेनडाइऑइक अम्ल ($\text{HOOC(CH}_2\text{)}_8\text{COOH}$) और हैक्सामेथिलीन डाइऐमीन $\text{H}_2\text{N(CH}_2\text{)}_6\text{NH}_2$



15.19 डेक्रॉन बनाने के लिए निम्नलिखित समीकरण हैं -

